



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 616 राँची, शुक्रवार,

2 जुलाई, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----

अधिसूचना

30 जुलाई, 2019 ई०।

संख्या-11/कोर्ट केस-31/2018- 4052 -- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर वाद सं.- W.P (S.) No- 565/2012- Nipun Saxena Vs. Union of India and others मामले में दिनांक-11.05.2018 एवं 25.07.2018 को पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा स्कीम प्रारूप Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018 तैयार किया गया है, जिसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 357 (A) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-5190, दिनांक-29 सितंबर 2016 द्वारा “झारखण्ड पीडित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2016” सह पठित अधिसूचना संख्या-4941 दिनांक-31.08.2018 के द्वारा “झारखण्ड पीडित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2018” लागू है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-357 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल के द्वारा झारखण्ड में अपराधों से पीड़ितों के प्रतिकर एवं पुर्नवास हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा तैयार स्कीम प्रारूप Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018 को अंगीकृत किया जाता है।

1. **संक्षिप्त नाम:-** यह स्कीम झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2019 कहलाएगी।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-5190, दिनांक-29 सितंबर 2016 द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2016” सह पठित अधिसूचना संख्या-4941 दिनांक-31.08.2018 के द्वारा “झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2018” में निम्न कंडिकाओं को अंतः स्थापित किया जाता है-

(i) **कंडिका-2 (ज)-** 'Sexual Assault Victims' से अभिप्रेत है ऐसी महिला से है, जिसे यौन अपराध (भा.द.वि. संहिता के धारा-376 (A) to (E), धारा 354 (A) to (D), धारा 509 सहित) में शारीरिक या मानसिक अथवा दोनों रूप में क्षति हुई हो।

(ii) **कंडिका-2 (झ)-** 'Women Victim/Survivor of other crime' से अभिप्रेत है ऐसी महिला से है, जिसे किसी अपराध (भा.द.वि. संहिता के धारा-304 B, 326 A, 498 A (शारीरिक क्षति में अनुसूची-क में वर्णित स्थितियों में) से शारीरिक या मानसिक रूप में क्षति हुई हो।

(iii) **कंडिका-5 (झ)-** कंडिका-2 (ज) एवं कंडिका-2 (झ) में परिभाषित पीड़ितों को **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018** के प्रावधानानुसार क्षति आधारित प्रतिकर अनुसूची-II के अनुरूप देय होगा, जो कि झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2016 में प्रावधानित पीड़ित प्रतिकर निधि से भुगतने योग्य होगा। **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018** से अनाच्छादित पीड़ितों के लिए “झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2016” विभागीय अधिसूचना संख्या-5190, दिनांक-29 सितंबर 2016 सह पठित “झारखण्ड पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम-2018” अधिसूचना संख्या-4941 दिनांक-31.08.2018 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

3. उक्त स्कीम अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. उक्त अधिसूचनाओं के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे तथा अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

**अनुसूची- II**  
**महिला पीड़ितों के लिए प्रतिकर की अनुसूची**

S.No.	Particulars of loss or injury	Minimum Limit of Compensation	Upper Limit of Compensation
1	Loss of Life	Rs. 5 Lakh	Rs. 10 Lakh
2	Gange Rape	Rs. 5 Lakh	Rs. 10 Lakh
3	Rape	Rs. 4 Lakh	Rs. 7 Lakh
4	Unnatural Sexual Assault	Rs. 4 Lakh	Rs. 7 Lakh
5	Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above	Rs. 2 Lakh	Rs. 5 Lakh
6	Loss of any Limb or part of body resulting in 40% and below 80% permanent disability or above	Rs. 2 Lakh	Rs. 4 Lakh
7	Loss of any Limb or part of body resulting in above 20% and below 40% permanent disability.	Rs. 1 Lakh	Rs. 3 Lakh
8	Loss of any Limb or part of body resulting in below 20% permanent disability.	Rs. 1 Lakh	Rs. 2 Lakh
9	Grievous physical injury or any mental injury requiring rehabilitation	Rs. 1 Lakh	Rs. 2 Lakh
10	Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss of fertility	Rs. 2 Lakh	Rs. 3 Lakh
11	In case of Pregnancy on account of rape.	Rs. 3 Lakh	Rs. 4 Lakh
12	Victim of Burning :		
a.	In case of disfigurement of face	Rs. 7 Lakh	Rs. 8 Lakh
b.	In case of injury more than 50%	Rs. 5 Lakh	Rs. 8 Lakh
c.	In case of injury less than 50%	Rs. 3 Lakh	Rs. 7 Lakh
d.	In case of injury less than 20%	Rs. 2 Lakh	Rs. 3 Lakh
13	Victims of Acid attack		
a.	In case of disfigurement of face	Rs. 7 Lakh	Rs. 8 Lakh
b.	In case of injury more than 50%	Rs. 5 Lakh	Rs. 8 Lakh
c.	In case of injury less than 50%	Rs. 3 Lakh	Rs. 5 Lakh
d.	In case of injury less than 20%	Rs. 3 Lakh	Rs. 4 Lakh

**Note:**

- (1) If a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.
- (2) Nothing in this scheme shall prevent victims or their dependents from instituting any civil suit or claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same.

**सतीश कुमार**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----